

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-03032020-216502
SG-DL-E-03032020-216502

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]	दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2020/फाल्गुन 9, 1941	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 394
No. 34]	DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2020/PHALGUNA 9, 1941	[N.C.T.D. No. 394

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

foÜk %jktLo&ix foHkx

vf/kl ipuk

दिल्ली, 28 फरवरी, 2020

l a 43@2018&jkT; dj

l a Qk- 03%46%foÜk%jktLo&ix@2019&20@Mh, l -VI@101.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और—

- अधिसूचना संख्या 57/2017—राज्य कर तारीख 12 दिसम्बर, 2017, जो दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में सं.फा. 03(70)/वित्त(राजस्व-1)/2017-18/डी.एस.VI/808 तारीख 12 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी;
- अधिसूचना संख्या 33/2018—राज्य कर तारीख 30 अगस्त, 2019, जो दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में सं. फा. 03(3)/वित्त(राजस्व-1)/2019-20/डी.एस-VI/356-366 तारीख 30 अगस्त, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी;

को सिवाय उन बातों के, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थी या करने का लोप किया गया था, अधिकांत करते हुए और परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका पूर्ववर्ती वित्त वर्ष या चालू वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक समग्र आवर्त है, को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो नीचे यथा वर्णित प्रक्रिया का माल या सेवा या दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए अनुसरण करेंगे।

2. उक्त व्यक्ति माल या सेवा या दोनों की जावक पूर्ति, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक की गई है, के ब्यौरों को दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 के *il i th, l Vhvkj & 1* में प्रस्तुत कर सकेंगे, अर्थात् :-

l kj . kh

<i>Øe l a</i>	<i>frekgh] ftl ds fy, il i th, l Vhvkj & 1 ea ; kjs i Lr r fd, tkrsg</i>	<i>il i th, l Vhvkj & 1 ea ; kjs i Lr r djs ds fy, l e; kof/k</i>
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई-सितंबर, 2017	31 अक्टूबर, 2018
2.	अक्टूबर-दिसंबर, 2017	31 अक्टूबर, 2018
3.	जनवरी-मार्च, 2018	31 अक्टूबर, 2018
4.	अप्रैल-जून, 2018	31 अक्टूबर, 2018
5.	जुलाई-सितंबर, 2018	31 अक्टूबर, 2018
6.	अक्टूबर-दिसंबर, 2018	31 जनवरी, 2019
7.	जनवरी-मार्च, 2019	30 अप्रैल, 2019

परंतु माल या सेवा या दोनों की जुलाई, 2018 से सितंबर, 2018 की तिमाही के लिए *il i th, l Vhvkj & 1* में जावक पूर्ति के ब्यौरे—(i) केरल राज्य में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा; (ii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका कारोबार का मूल स्थान कर्नाटक राज्य में कोडागु जिले में है; और (iii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका कारोबार का मूल स्थान पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के माहे में है, इलैक्ट्रॉनिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 15 नवंबर, 2018 को या उससे पूर्व प्रस्तुत किए जाएंगे:

परंतु यह और कि माल या सेवा या दोनों की जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 की तिमाही के लिए करदाताओं द्वारा, जिन्होंने अधिसूचना सं. 31/2018-राज्य कर तारीख 02 सितम्बर, 2019, जो दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में सं. फा. 03(16)/वित्त(राजस्व-1)/2019-20/डी.एस. VI/384 तारीख 02 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के निबंधनों में माल और सेवा कर पहचान सं. (जीएसटीआईएन) अभिप्राप्त कर ली है, द्वारा *il i th, l Vhvkj & 1* में जावक पूर्ति के ब्यौरों को इलैक्ट्रॉनिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 31 दिसंबर, 2018 को या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।

3. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 के मास के लिए, यथास्थिति, ब्यौरों या विवरणों को प्रस्तुत करने की समय-सीमा पश्चातवर्ती रूप से राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

4. यह अधिसूचना 10 सितम्बर, 2018 से लागू मानी जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
सुनील सहगल, उप सचिव-VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 28th February, 2020

No. 43/2018-State Tax

No. F. 3(46)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/101.—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), and in supersession of —

- Notification No. 57/2017-State Tax dated 12th December, 2017 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* No. F. 3(70)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/808 dated the 12th December, 2017;
- Notification No. 33/2018-State Tax dated 30th August, 2019 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* No. F. 3(3)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/356-366 dated the 30th August, 2019.

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2 The said persons may furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Quarter for which details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July - September, 2017	31 st October, 2018
2	October - December, 2017	31 st October, 2018
3	January - March, 2018	31 st October, 2018
4	April - June, 2018	31 st October, 2018
5	July - September, 2018	31 st October, 2018
6	October - December, 2018	31 st January, 2019
7	January - March, 2019	30 th April, 2019

Provided that the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** for the quarter from July, 2018 to September, 2018 by- (i) registered persons in the State of Kerala; (ii) registered persons whose principal place of business is in Kodagu district in the State of Karnataka; and (iii) registered persons whose principal place of business is in Mahe in the Union territory of Puducherry shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 15th day of November, 2018:

Provided further that the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** to be filed for the quarters from July, 2017 to September, 2018 by the taxpayers who have obtained Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) in terms of notification No. 31/2018 - State Tax dated 2nd September, 2019 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide **No. F.3(16)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/384**, dated 2nd September, 2019, shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 31st day of December, 2018;

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the months of July, 2017 to March, 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

4. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 10th day of September, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
SUNIL SEHGAL, Dy. Secy.-VI (Finance)